



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 312]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 1979/श्रावण 8, 1901

No. 312]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 1979/SRAVANA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रख जा सके ;
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1979

आदेश

का० प्रा० 443 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस०ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1968 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिकारियों पर विचार करने के बाद एतद्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई (मीटरों में)	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या आकुर्वेदी फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1579	264.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई		सामान्य रिसेज के लिए "समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म।
2.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1580	286.00	-तद्व-		-तद्व-
3.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1581	299.00	-तद्व-		-तद्व-
4.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1582	295.00	-तद्व-		सामान्य प्रदर्शन के लिए। समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।

1	2	3	4	5	6
5.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1583	301.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई		सामान्य रिलीज के लिए "समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म।
6.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1584	301.00	-तदैव-		-तदैव-
7.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1584-क	301.00	-तदैव-		-तदैव-
8.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1585	297.00	-तदैव-		-तदैव-
9.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1586	298.00	-तदैव-		-तदैव-
10.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1587	234.00	-तदैव-		-तदैव-
11.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1588	233.00	-तदैव-		-तदैव-
12.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1588-क (पूर्वी संस्करण)	290.00	-तदैव-		-तदैव- पूर्वी सकिट में सभी क्वाटरों में प्रदर्शन के लिए।
13.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1589	203.00	-तदैव-		-तदैव-
14.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1590	207.00	-तदैव-		-तदैव-
15.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1591	246.00	-तदैव-		-तदैव-
16.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1592	210.00	-तदैव-		-तदैव-
17.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1592क	197.00	-तदैव-		-तदैव-
18.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1593	231.00	-तदैव-		-तदैव-
19.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1594	202.00	-तदैव-		-तदैव-
20.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1595	145.00	-तदैव-		-तदैव-
21.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1596	145.00	-तदैव-		-तदैव-
22.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1597	202.00	-तदैव-		-तदैव-
23.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1598	211.00	-तदैव-		-तदैव-
24.	उत्तर प्रदेश समाचार-60	281.93	सूचना और जन सम्पर्क निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।		यू०पी० सकिट समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए।
25.	केंद्र शीक	438.61	जीनिवास महापात्र, 25/ 356, सिद्धार्थ नगर, बम्बई।		बाकुमेंट्री
26.	ए क्रिस्टल आफ मेमोरी	297.18	सूचना और जन सम्पर्क महा- निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।		-तदैव-
27.	महाराष्ट्र समाचार संख्या 327	233.00	-तदैव-		महाराष्ट्र सकिट में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए।
28.	जिंदगी से न खोने	283.44	किशोर पिकचर्स, 194, नटराज स्टुडियो, बम्बई		शिक्षा संबंधी
29.	माना बाल	297.18	सूचना और जन सम्पर्क महा- निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई		महाराष्ट्र सकिट में प्रदर्शन के लिए। बाकुमेंट्री
30.	माहिती चित्र संख्या 294	237.74	सहायक सूचना निदेशक (टी), गुजरात सरकार, बम्बई।		गुजरात सरकार में प्रदर्शन के लिए। समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।
31.	उड़ीसा मुख्य घटनावाली-117	295.85	जन सम्पर्क निदेशक, उड़ीसा सरकार, उड़ीसा।		उड़ीसा सकिट में प्रदर्शन के लिए। समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।
32.	उड़ीसा मुख्य घटनावाली-118	305.00	-तदैव-		-तदैव-
33.	बिप्पी	382.50	सूचना और जन सम्पर्क महा- निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई		बाकुमेंट्री
34.	प्रगति के पथ पर बिहार भाग-12	269.44	श्री एम० झा, फिल्म सम्पा- दक, सूचना और जनसंपर्क निदेशक, बिहार सरकार, पटना।		बिहार सकिट में प्रदर्शन के लिए। समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।
35.	मध्य प्रदेश समाचार प्रसार संख्या 18	281.94	सूचना और प्रचार निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, बोपास		म०प्र० सकिट में प्रदर्शन के लिए। समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।

1	2	3	4	5	6
36. माहिती चित्र संख्या 295	237.74	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, बम्बई।			गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए। समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।
37. धुधर पाइल	276.15	कले हुनर फिल्म्स, नानाभाई मैशन, सर फिरोजशाह मेहता रोड, बम्बई।			डाकुमेंट्री।
38. पकेजिंग फार प्रोपैस	367.27	इंडियन इस्टीमेट आफ पकेजिंग, अंधेरी, बम्बई।			—तदैव—
39. काजू	224.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई।			—तदैव—
40. प्रिजिंग ए रिज हैरीटेज	233.00	तदैव—			—तदैव—
41. गोबर बैस	293.00	खादी ग्रामोबोग आयोग, इला रोड, बिले पारले, बम्बई।			—तदैव—
42. माहिती चित्र संख्या 296	259.08	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई।			गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए। समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।
43. बुध फार्मिंग्स आफ उड़ीसा	271.27	ट्रिवन फिल्म्स, विलीप बस द्वारा अतुल चन्द्र मिश्र, कटक उड़ीसा।			डाकुमेंट्री।
44. बि स्टोरी आफ बीट	266.00	फिल्म प्रभाग, बम्बई			शिक्षा संबंधी।
45. महाराष्ट्र समाचार संख्या 328	283.00	सूचना और जन सम्पर्क महा-निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।			महाराष्ट्र सर्किट में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए।
46. हैरी डेज	327.36	श्री इन्द्र नायर, एस-ए, अस्कापुरी, उदयपुर।			डाकुमेंट्री
47. बीएस	387.00	गुलबहार, 48, ताल्ली गुंजे सर्कुलर रोड, कलकत्ता।			डाकुमेंट्री
48. बीसत	232.00	सूचना और जन सम्पर्क महा-निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।			महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
49. थाफ सैन एण्ड एनर्जी	337.02	श्री जी० अधिकारी, गोबर्धन अधिकारी प्रोडक्शन्स, कलकत्ता।			डाकुमेंट्री
50. उत्तर प्रदेश समाचार दर्शन संख्या 61	282.00	सूचना निदेशालय, श्री बी० प्रभाकर, सी 62, पलावर स्कीन, अंधेरी बम्बई।			समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
51. थैक इन टाइम	230.00	फिल्म प्रभाग, बम्बई बिस्काट, 35 होटल मनाली, मलाड, बम्बई।			शिक्षा संबंधी
52. चाईज	45.72	प्रवीण शर्मा, 203 पाम बीच, ग्राम्स मनाली, बम्बई।			शिक्षा संबंधी
53. ए प्रिंस थाफ वीपल	370.00	सूचना और जन सम्पर्क महा-निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।			डाकुमेंट्री
54. धनयोधय	418.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई।			—तदैव—
55. महाराष्ट्र समाचार संख्या	329.00	सूचना और जन सम्पर्क महा-निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।			समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए।
56. फेड्स टोदर	399.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई।			डाकुमेंट्री
57. मेवा पानी दे पानी दे	286.00	सूचना और जन सम्पर्क महानिदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।			—तदैव— महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए।

1	2	3	4	5	6
58. माहिती चित्र संख्या 297	274.32	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, बम्बई ।			समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
59. कालिदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	320.04	मैसूर पावर कारपोरेशन लि०, भारतीय विद्या भवन, गलौर ।			बाकुमेंट्री, कर्नाटक सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
60. फ्राप्टर बि रैंक	132.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई ।			बाकुमेंट्री
61. प्रेम दि झूठी	353.00	-तदैव-			-तदैव-
62. दि रोड टू सक्सेस	301.00	-तदैव-			-तदैव-
63. फिटनेस फार फाल	375.00	-तदैव-			-तदैव-
64. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1587 प्रादेशिक संस्करण उत्तर	295.00	-तदैव-			उत्तरी क्षेत्र में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म ।
65. माहिती चित्र संख्या 298	274.32	सहायक सूचना निदेशक (टी) शिवाजी महाराज मार्ग, बम्बई ।			समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
66. शिवकुमार बाटल्ही पंजाब के कवि	322.00	फिल्म प्रभाग 24 पैडर रोड, बम्बई श्री बलवन्त गार्गी, 27, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ।			बाकुमेंट्री
67. नई बिन्वनी	292.61	कृने गिरधर फिल्म्स, टी० बी० पेंडारकर, विले पार्ले, पूणे, बम्बई ।			बाकुमेंट्री
68. धाँधरे से उजाले तक	234.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई ।			बाकुमेंट्री
69. एंटर प्रिन्योसे पैराडाईज	311.81	कृने बी० एस० एंटरप्राइजिज 11, रामप्रियाम निवास, सीतलवाडी टेंपल रोड, महीम, बम्बई ।			बाकुमेंट्री
70. माहिती चित्र संख्या 299	262.13	सूचना सहायक निदेशक, गुजरात सरकार, बम्बई ।			गुजरात सर्किट में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए ।
71. पंचायत उद्योग	296.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई ।			बाकुमेंट्री
72. एज धाफ मैरिज	292.00	-तदैव- मैसूर घरोड़ा फिल्म्स, बम्बई			-तदैव-
73. विद्याराभाणि निबारा	300.00	सूचना और जन सम्पर्क महानिदेशक, महाराष्ट्र सरकार बम्बई ।			-तदैव- महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
74. भारतीय समाचार चित्र सं० 1589 दक्षिणी क्षेत्र	300.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई			समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म दक्षिणी क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए ।
75. काबवा घाट चेंजिंग ट्रेडिंशंस	447.00	फिल्म प्रभाग 24 पैडर रोड, बम्बई ।			बाकुमेंट्री
76. नए जीवन के ताल	393.00	-तदैव-			तदैव-
77. दि बिसीजन	358.00	-तदैव-			शिक्षा संबंधी
78. दि बर्लैं भाफ विल्लुन	295.00	-तदैव-			बाकुमेंट्री
79. पास पोर्ट टु एम्प्लायमेंट	279.00	-तदैव-			-तदैव-
80. ए सेफ बैंट	151.00	-तदैव-			-तदैव-
81. गले की सुरक्षा	213.00	-तदैव-			शिक्षा संबंधी
82. सर्विस एट डोर स्टेप	181.00	-तदैव-			बाकुमेंट्री
83. शारदा सहायक प्रोजेक्ट	234.00	-तदैव-			-तदैव-
84. समय रहते सुरक्षा	271.00	-तदैव-			शिक्षा संबंधी
85. बम्बल रिवाइज	290.00	-तदैव-			बाकुमेंट्री
86. सहकारिता की कहानी	400.00	-तदैव-			-तदैव-
87. देखने से छोटे	394.00	-तदैव-			-तदैव-
88. महाराष्ट्र समाचार संख्या 330	242.00	सूचना और जनसंपर्क महानिदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई ।			समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
89. सत्यकथा	246.28	-तदैव-			बाकुमेंट्री । महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
90. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1590 पश्चिमी संस्करण	299.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई ।			पश्चिमी क्षेत्र में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए ।
91. यमी स्प्रिंग स्कीम	305.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई ।			बाकुमेंट्री
92. टु बी फाल बंज धोन फीट	256.00	-तदैव-			-तदैव-
93. 22 बचम्बर	409.00	-तदैव-			-तदैव-

1	2	3	4	5	6
94.	केयर आफ आईज	329.00	फिल्म प्रभाग 24 पैडर रोड, बम्बई ।		डाकुमेंट्री
95.	विल सुषमा लिब	347.00	—तदैव—		—तदैव—
96.	नो सुधर नोज	293.00	—तदैव—		—तदैव—
97.	ए मैटर आफ लाइफ एंड डेथ	315.00	—तदैव—		—तदैव—
98.	सपनू सकार बायू	258.67	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, बंदर, बम्बई ।		—तदैव—
99.	स्टोरी आफ सैपटी मठ	279.80	दिलीपवस्त, 22/3395 सिद्धार्थ नगर, 4, गोरे गांव पश्चिम, बम्बई ।		गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए । शिक्षा संबन्धी
100.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1591 उत्तरी क्षेत्र	299.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई ।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म, उत्तरी सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
101.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1592 पूर्वी संस्करण	293.00	—तदैव—		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म पूर्वी सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
102.	माहिती चित्र संख्या 300	252.98	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, बम्बई ।		गुजरात सर्किट में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए ।
103.	मध्य प्रदेश समाचार सं० 19	281.02	सूचना और प्रचार सहायक निदेशक, म० प्र० सरकार, भोपाल ।		म० प्र० सर्किट में समाचार और घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए ।
104.	उत्तर प्रदेश समाचार—62	294.42	सूचना और जन सम्पर्क उप-निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।		उत्तर प्रदेश सर्किट में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए ।
105.	बिजली करे धंधेरा	329.18	श्री श्रमूत नाहटा, सं० सं०, द्वारा फिल्म सूचना बम्बई ।		डाकुमेंट्री
106.	भारतीय चित्र सं० 1593 वक्षिणी संस्करण	301.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई ।		वक्षिणी क्षेत्र में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए ।
107.	उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 63	284.07	श्री धीरेन्द्र पाण्डे, फिल्म अधिकारी, उ०प्र० द्वारा बम्बई फिल्म लेबा० प्रा०लि०, बम्बई ।		उत्तर प्रदेश सर्किट में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए ।
108.	ए साइलेंट अनाउसमेंट	387.71	सूशान्ता गांगुली, 1/22 सर्सुना मेन रोड, कलकत्ता ।		डाकुमेंट्री
109.	मैहमत और मजिल	305.00	ब्रज भूषण, 9 मैटीना गैस्ट हाउस, बम्बई ।		—तदैव—
110.	जैम्बोरी—जैम्बोरी	304.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई ।		—तदैव—
111.	दि जान रैकट	294.74	श्री बी०डी० गर्ग, डी-11, कामसं सेंटर, तारदेव रोड, बम्बई ।		—तदैव—
112.	नई रोशनी	304.80	फिल्मी सोशालिस्ट 11, विलिज भावना सोसायटी, बम्बई ।		निदेशक, जावी डाकुमेंट्री और शोमोशन, बम्बई ।
113.	माहिती चित्र 301	219.46	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, बम्बई ।		गुजरात सर्किट में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए ।
114.	सूचाप्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	323.09	मूवो सेंटर, सेंट एपिस रोड, बम्बई ।		एम० डब्ल्यू० डाकुमेंट्री मुकबभ, प्रोपराइटर, मूवी सेंटर
115.	जीवाबोरी (रंगीन)	316.99	रमेश दागी पक्वसे, 7 चन्द्र दर्शन, 43, बी०आई० रोड, बम्बई ।		—तदैव—
116.	हैल्प वैन टु ब्लूम	69.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई ।		गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए । शिक्षा संबन्धी
117.	माहिती चित्र सं० 302	233.17	सहायक सूचना निदेशक, (1) गुजरात सरकार, बम्बई ।		गुजरात सर्किट में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए ।
118.	बंकट पान साथी	169.77	रमेश दागी 7 चन्द्र दर्शन, बी० आई० रोड, बम्बई ।		डाकुमेंट्री
119.	भारतीय समाचार चित्र सं० 1597 पश्चिमी संस्करण	299.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई । (1)		गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए । पश्चिमी सर्किट में समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म प्रदर्शन के लिए ।

1	2	3	4	5	6
120.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1598 उत्तरी संस्करण	294.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई ।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म उत्तरी सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
121.	छोटी-छोटी बातें	291.39	घोरेश्वर पाण्डे, फिल्म अधिकारी द्वारा बम्बई फिल्म नेवा० 149, एस०के० भोले रोड, बम्बई ।		हाकुमेंट्री उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
122.	भाग्य की रेखा	457.20	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	आर०सी० जांगो, ए०बी० मीडिया अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।	हाकुमेंट्री ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए ।

[फाइल सं० 315/1/78 एक(पी)]

बी० एन० भट्टाचार्य, ईस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 30th July, 1979

S.O. 443(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

S.NO.	Title of the Film	Length of the film (in metres)	Name of the applicant	Name of the Producer	Brief whether a synopsis scientific film or for educational purpose or a film dealing with news, current events or documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	INR No. 1579	264.00	Films Division, Govt. of India, 24, Peddar Road, Bombay.		General Release. News and Current Events.
2.	INR No. 1580	286.00		-do-	-do-
3.	INR No. 1581	299.00		-do-	-do-
4.	INR No. 1582	295.00		-do-	-do-
5.	INR No. 1583	301.00		-do-	-do-
6.	INR No. 1584	301.00		-do-	-do-
7.	INR No. 1584-A	301.00		-do-	-do-
8.	INR No. 1585	297.00		-do-	-do-
9.	INR No. 1586	298.00		-do-	-do-
10.	INR No. 1587	234.00		-do-	-do-
11.	INR No. 1588	233.00		-do-	-do-
12.	INR No. 1588-A (Eastern Edition)	290.00		-do-	-do-for release in Eastern Circuit in all versions
13.	INR No. 1589	203.00		-do-	-do-
14.	INR No. 1590	207.00		-do-	-do-
15.	INR No. 1591	246.00		-do-	-do-
16.	INR No. 1592	210.00		-do-	-do-
17.	INR No. 1592-A	197.00		-do-	-do-
18.	INR No. 1593	231.00		-do-	-do-

1	2	3	4	5	6
19.	INR No. 1594	202.00	Films Division, Govt. of India, 24 Peddar Road, Bombay.	General	News and Current Events.
20.	INR No. 1595	145.00	-do-	-do-	-do-
21.	INR No. 1596	145.00	-do-	-do-	-do-
22.	INR No. 1597	202.00	-do-	-do-	-do-
23.	INR No. 1598	211.00	-do-	-do-	-do-
24.	Uttar Pradesh Samachar-60	281.93	The Director of Information and Public Relations, Govt. of U.P., Lucknow.	Release in U.P. Circuit, News and Current Events.	Documentary
25.	Kandau Leaf	438.61	Srinivas Mahapatra, 23/356, Sidharth Nagar, Bombay.	Documentary	
26.	A Crystal of Memory	297.18	Directorate General of Inf. and Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Bombay.	Documentary	
27.	Maharashtra News No. 327	288.00	Directorate General of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Bombay.	Release in Maha. Circuit News & Current Events.	
28.	Zindagi Se Na Khelo	283.44	Kishore Pictures, 194, Natraj Studio, Bombay.	Educational	
29.	Maza Bal	297.18	Director General of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Bombay.	Release in Maharashtra Circuit. Documentary.	
30.	Mahiti Chitra No. 294	237.74	Asstt. Director of Inf. (T), Govt. of Gujarat, Bombay.	Release in Gujarat Circuit News & Current Events.	
31.	Orissa Mukhya Chatanajali-117	295.85	Govt. of Orissa, Director of Pub. Relations, Orissa.	Release in Orissa Circuit News & Current Events.	
32.	Orissa Mukhya Ghatnabali-118	305.00	-do-	-do-	-do-
33.	Dindi	382.50	Directorate General of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Bombay.	Documentary.	
34.	Pragati Ke Path Per Bihar-Pt. 12	269.44	Director of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Bihar, Patna.	Release in Bihar, Circuit. News & Current Events.	
35.	Madhya Pradesh Samachar Darshan No. 18	281.94	Director, Inf. & Pub. Relations, Govt. of M.P. Bhopal.	Release in M.P. Circuit, News & Current Events.	
36.	Mahiti Chitra No. 295	237.74	Asstt. Director of Inf. Govt. of Gujarat, Bombay.	Release in Gujarat Circuit News & Current Events.	
37.	Your Child	276.15	For Hunnar Films, Nanbhay Mansion, Sir Feroz Shah Mehta Road, Bombay.	Documentary.	
38.	Packaging for Progress	367.27	Indian Institute of Packing, Andheri, Bombay.	Documentary.	
39.	Cashew	224.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay.	Documentary	
40.	Preserving a rich heritage	233.00	-do-	-do-	-do-
41.	Gobar Gas	293.00	Khadi & Village Industries Commission, Irrla Road, Vile Parle, Bombay.	-do-	-do-
42.	Mahiti Chitra No. 296	259.08	Films Division, 24 Peddar Road, Bombay.	Release in Gujarati Circuit, News and Current Events	
43.	Wood Carvings of Orissa	271.27	Twin Films, Dilip Dutta, C/o Atula Chandra Mitra, Cuttack—Orissa.	Documentary	
44.	The Story of Wheat	366.00	Films Division, Bombay.	Educational.	
45.	Maharashtra News No. 328	283.00	Directorate General of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Bombay.	News & Current Events for Maharashtra Circuit.	
46.	Happy Days	327.36	Shri Inder Nayar, 8A, Alkapuri, Udaipur.	Documentary	
47.	Weeds	387.00	Gul Bahar, 48, Tollygunge* Circular Rd., Calcutta.	Documentary	
48.	Daulat	232.00	Director Gen. of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Bombay.	-do-	Release for Maharashtra Circuit.
49.	Of Man and Energy	337.02	Shri G. Adhikari, Gobordhan Adhikary Prod., Calcutta.	Documentary	
50.	Uttar Pradesh Samachar Darshan No. 61.	282.00	Directorate of Inf. Shri V. Prabhakar, C/62, Flower Queen, Andheri, Bombay.	News & Current Events, release in U.P.	
51.	Check in Time	230.00	Films Division, Bombay.	Educational.	
52.	Eyes	45.72	Pravin Sharma, 205, Palm† Beach Apts, Manali, Bombay.	Educational	
53.	A Prince of People	370.00	Directorate General of Inf. & Pub. Relations Govt. of Maharashtra, Bombay.	Documentary	

*K.R.G. Pictures, 48, Tollygunge, Circular Road, Calcutta.

†Vision, 35, Hotel Manali, Malad, Bombay.

1	2	3	4	5	6
54.	Antyodaya	418.00	Films Division, 24 Peddar Road, Bombay.	Documentary	
55.	Maharashtra News No. 329.	329.00	Director Genl. of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Bombay.	News & Current Events, Release in Maharashtra, Circuits.	
56.	Friends Together	399.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay.	Documentary	
57.	Magha Pani De Pani De	286.00	Director. Genl. of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maha. Bombay.	Documentary, Release in Maha., Bombay.	
58.	Mahiti Chitra No. 297	274.32	Asstt. Director of Inf., Govt. of Gujarat, Bombay.	News & Current Events, Release in Gujarat Circuits.	
59.	Kalinadi Hydroelectric Project	320.04	Mysore Power Corpn. Ltd., Bhartiya Vidya Bhavan Bangalore.	Documentary, Release in Karnataka Circuit.	
60.	After the Wreck	132.00	Films Division, 24-Peddar, Road, Bombay.	Documentary.	
61.	Grace the Beauty	353.00	-do-	-do-	
62.	The Road to Success	301.00	-do-	-do-	
63.	Fitness for All	357.00	-do-	-do-	
64.	INR No. 1587 Regional Edition-North	295.00	-do-	News & Current Events, Release Northern Region.	
65.	Mahiti Chitra No. 298.	274.32	Asstt. Director of Inf. (T) Shavaji Maharaj Marg, Bombay.	News & Current Events, Release for Gujarat Circuit.	
66.	Shiv Kumar Batalvi Poet of Punjab	322.00	Films Division, 24, Peddar Road, Bombay.	Documentary	
67.	Nai Zindagi	292.61	For Gridhar Films, T.B. Pendharkar, Vile Parle, East, Bombay, Bombay.	-do-	
68.	From Darkness upto Light	234.00	Films Division, 24 Peddar Road, Bombay.	-do-	
69.	Entrepreneurs Paradise	311.81	For V.S. Enterprises, 11 Ram Shaym Nivas, Sitadevi Temple Road, Mahim, Bombay.	-do-	
70.	Magutu Chitra No. 299	262.13	Asstt. Director of Inf. Govt. of Gujarat, Bombay.	News & Current Events, release in Gujarat Circuits,	
71.	Panchayat Industries	296.00	Films Divison, 24, Peddar Road, Bombay.	Documentary	
72.	Age of Marriage	292.00	-do- M/s Arora Films Bombay.	-do-	
73.	Nikhara Aani Nivara	300.00	Directorate General of Inf. & Pub. Relations Govt. of Maha., Bombay.	Documentary release in Maharashtra Circuit.	
74.	INR No. 1589. Southen Region	300.00	Films Division, 24, Peddar Road, Bombay.	News & Current Events, release in Southern Region.	
75.	Chadwa Art : Changing Traditions	447.00	-do-	Documentary	
76.	Rhythms of a New Life	393.00	-do-	-do-	
77.	The Decision	358.00	-do-	Educational	
78.	The World of Children	295.00	-do-	Documentry	
79.	Passport to Employment	279.00	-do-	-do-	
80.	A Safe Bet	151.00	-do-	-do-	
81.	Care of the Throat	213.00	-do-	Educational	
82.	Service at Doorstep	181.00	-do-	Documentary	
83.	Sarda Sahayak Project	234.00	-do-	-do-	
84.	Project them Early	271.00	-do-	Educational	
85.	Chambal Ravines	290.00	-do-	Documentary	
86.	Hand in Hand for 75 years	400.00	-do-	-do-	
87.	Not So Small	394.00	-do-	-do-	
88.	Maharashtra News No. 330	242.00	Directorate General of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Bombay.	News & Current Events, release in Maharashtra Circuit.	
89.	Satyakatha	246.28	-do-	Documentary, release in Maharashtra Circuit.	
90.	INR No. 1590 Western Edition	299.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay.	News & Current Events, release in Western region.	
91.	Money Spinning Schemes	305.00	-do-	Documentary	
92.	To be on One's Own Feet	256.00	-do-	-do-	
93.	22nd November	409.00	-do-	-do-	
94.	Care of Eyes	329.00	-do-	-do-	
95.	Will Sushma Live	347.00	-do-	-do-	
96.	Know your Nose	293.00	-do-	-do-	
97.	A Matter of Life and Death	315.00	-do-	-do-	
98.	Sapnu Sakar Thayu	258.67	Asstt. Director of Infm., Govt. of Gujarat, Bunder, Bombay.	Documentary, release in Gujarat Circuit.	
99.	Story of Safety Match	279.20	Dilipdutta, 22/3395, Sidharth Nagar, Goregaon, west Bombay-62.	Eudcational	

1	2	3	4	5	6
100.	INR No. 1591 Northern Region	299.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay.		News & Current Events, release in Northern Circuit.
101.	INR No. 1592 Eastern Edition	293.00	-do-		News & Current Events, release in Eastern Region.
102.	Mahiti Chitra No. 300	252.98	Asstt. Director of Infm. Govt. of Gujarat, Bombay.		News & Current Release in Gujarat Circuit.
103.	Madhya Pradesh Samachar No. 19	281.02	Asstt. Director, Infm. and Publicity Govt. of M.P., Bhopal.		News & Current Events for relex in M.P. Circuit.
104.	Uttar Pradesh Samachar-62	192.42	Dy. Director of Infm. & Public Relations Deptt. U.P., Lucknow.		News & Current release in U.P. Circuit.
105.	Bijli Kare Andhera	329.18	Shri Amrit Nahata, M.P. C/o Film Information, Bombay.		Documentary
106.	INR No. 1593 Souther Edition	301.00	Films Division 24-Peddar Road, Bombay.		News & Current release for Southern region.
107.	Uttar Pradesh Samachar No. 63	284.07	Sh. Dharendra Pande, Film Officer, U.P.* C/o Bombay Film Lab. Pvt. Ltd., Bombay.		News & Current Events release in U.P. Circuit.
108.	A Silent Announeement	387.71	Sushanta Ganguly† 1/22 Sarsuna Main Rd., Calcutta.		Documentary
109.	Mehant Aur Manzil	305.00	Braj Bhushan, 9 Marina Guest House, Bombay.		-do-
110.	Jamboree Jamboree	304.00	Films Division, 24, Peddar Road, Bombay.		-do-
111.	The Job Racket	294.74	Shri B. D. Garga, D-11, Commerce Centre, Tardeo Rd., Bombay.		Documentary
112.	Nai Roshani	304.80	Filmi Saudagars, 11, Director Khadi & Kshitij Adarsh Industries, Bombay.		-do-
113.	Mahitichitra No. 301	219.46	Asstt. Director Information Govt. of Gujarat, Bombay.		News & Current Events release in Gujarat Circuit.
114.	Droguht Prone Areas Programme	323.09	Movie Centre, St. M.M. Mukadam April Road, Bombay. Prop. Movie Centre.		Documentary
115.	Jivadori (Colour)	316.00	Ramesh Dani Pictures, 7 Chandra Darshan, 43, P.I. Road, Bombay.		Documentary, release in Gujarat Circuit.
116.	Help them to bloom	69.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay.		Educational
117.	Mahitichitra No. 302	233.17	Asstt. Director of Infm. Govt. of Gujarat, (1) Bombay.		News & Current Events, release in Gujarat Circuit.
118.	Sankat Maan Sathi	169.77	Ramesh Dani, 7, Chandra Darshan, B.I. (1) Rd. Bombay.		Documentary release in Gujarat Circuit.
119.	INR No. 1597 Western Edition	299.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay. (1)		News & Current Events, release in Western Circuit.
120.	INR No. 1598 Northen Edition	294.00	-do-		News & Current Events, release in Northern Circuit.
121.	Chhoti Chhoti Baaten	291.39	Dhirendra Pande, Director Infm. & Film Officer, C/o Public Relations Bombay Film Lab. Deptt. of U.P., 149, S.K. Bole Lucknow. Rd. Bombay.		Documentary, Release in U.P. Circuit.
122.	Bhagya Ki Rekha	457.20	Deptt. of Health & R.C. Joshi, A.V. Media, Officer, India Nitman, Bha- Min. of Health & wan, New Delhi. FW, Govt. of India, N. Delhi.		Documentary, release in rural areas

[File No. 315/1/78-F(P)]

B.N. BHATTACHARJEA, Desk Officer

*Dy. Director Infm. & Pub. Relations, Deptt. U.P., Lucknow

†Dr. S.K. Bhadra, 95/1, Sri Arbindra Rd., Hawrah.

